

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 258*

जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़

258*. श्री एम बी राजेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार और केरल की राज्य सरकार दोनों, ने लाभ अर्जित करने वाली इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ को अपने नियंत्रण में लेने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अधिग्रहण के निबंधन और शर्तें तथा समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या कोटा स्थित आई एल की यूनिट को बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है; और
- (घ) यदि हां, तो आई एल कोटा यूनिट के कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान पर कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

“इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़” के संबंध में श्री एम बी राजेश द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2018 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं। केरल सरकार को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ के हस्तांतरण की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ के हस्तांतरण के लिए कार्य-प्रणाली और नियम एवं शर्तों के लिए केरल सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है, लेकिन इन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(ग) और (घ): इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट के दिनांक 18.04.2017 की स्थिति के अनुसार सभी कार्यरत कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस दे दिया गया है और कर्मचारियों से संबंधित सभी देयताओं का समाधान कर लिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों की देयताओं का समाधान करने के लिए ₹429.39/- करोड़ की राशि खर्च हुई है।
